



**1-The government has approved the proposals of software firm TCS and realty major DLF to set up special economic zones (SEZs) for IT sector in Haryana and Uttar Pradesh.**

सरकार ने सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस और रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आईटी क्षेत्र का विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

**2-President Ram Nath Kovind administered the oath of office to Information Commissioner Bimal Julka as the Chief Information Commissioner (CIC) in the Central Information Commission.**

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पद की शपथ दिलाई।

**3-Former India opener Wasim Jaffer announced retirement from all forms of cricket, drawing curtains on his illustrious career spanning over two decades.**

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की जिससे दो दशक तक चले उनके शानदार करियर का भी अंत हो गया।

**4-DMK senior leader K.K. Anbazhagan died. He was 97.**

द्रमुक के वरिष्ठ नेता के. के. अनबझगन का निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे।

**5-President Donald Trump has announced a major staff overhaul, naming Rep. Mark Meadows as his new chief of staff and replacing Mick Mulvaney.**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर. मार्क मीडोउ को अपना नया चीफ ऑफ स्टॉफ नामित करने की घोषणा की है। वह कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ मिक मुल्वाने का स्थान लेंगे।

**6-Justice S Muralidhar took oath as a judge at the Punjab and Haryana High Court.**

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली।

**7-BJP-led Assam government announced free rice and electricity in Budget 2020-21.**

भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने बजट 2020-21 में मुफ्त चावल और बिजली की घोषणा की।

**8-US President Donald Trump has signed an \$8.3 billion emergency spending bill to help tackle the coronavirus outbreak that has killed about 14 people in the country.**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश में लगभग 14 लोगों की जान लेने वाले कोरोनावायरस प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए \$ 8.3 बिलियन के आपातकालीन व्यय बिल पर हस्ताक्षर किए हैं।

### **9-PUMA announced Kareena Kapoor Khan as their latest brand ambassador in India.**

प्यूमा ने करीना कपूर खान को भारत में अपना नवीनतम ब्रांड एंबेसडर घोषित किया।

